



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 1982/कार्तिक 12, 1904

No. 500]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 1982/KARTIKA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1982

क्र० आ० 776(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अध्यादेश कर्ता है कि निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्के भी केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारधीन जारी किए जाने के लिए टकसाल में बनाए जाएंगे और यह कि ऐसे अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमा, डिजाइन और सरसता के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का मूल्य अंकित	आकार और बाहरी व्यास	मिनेशनों की सं० धातु	सरसता
एक रुपया	वृत्ताकार 26 मिलीमीटर	204	ताम्र रूपा : तांबा— 75 प्रतिशत रूपा— 25 प्रतिशत

डिजाइन :

मुख्य भाग— सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तंभ के सिंह गुम्बज के साथ 'सत्यमेव जयते' मार वाक्य नीचे अंकित होगा और उसके बाये उपर भाग में "भारत" शब्द और दाये उपरी भाग में "INDIA" शब्द अंकित होगा। सम्पूर्ण डिजाइन और शब्द एक सप्तभुज से बंद होंगे।

पृष्ठ भाग—सिक्के के इस भाग पर मध्य में सिक्के का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा जिसके दोनों ओर अमाज की वाली होगी। "रुपया" शब्द और "RUPEE" शब्द अंतर्राष्ट्रीय अंकों के उपर और नीचे अंकित होंगे। सिक्का निर्माण वर्ष "RUPEE" शब्द के नीचे दर्शाया होगा। सम्पूर्ण डिजाइन और शब्द एक सप्तभुज से बंद होंगे।

किनारा—सिक्के के किनारे सेरेशित या ऊंचे उठे हुए रेखांकन और सुरक्षा किनारों से रेखांकित होंगे। किनारों के मध्य एक उथला गेहर होगा जिसके बाली स्थानों से पृथक किए गए दो बंडों के भीतर एक डिजाइन होगा। यह डिजाइन उद्भूत मणिकामों की श्रृंखला होगी जो अन्तराल पर होगी और प्रत्येक मणिका के पीछे दो उद्भूत उर्ध्वाधर रेखाएं होंगी।

[सं० एक० 1/9/IV/81-स्वायत्त]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th October, 1982

S.O. 776(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that the coins of the following denomination shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government and that such coins shall

conform to the following dimension, design and metal composition, namely:—

Denomination of the coins	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
One Rupee	Circular 26 millimetre	204	Cupro-Nickel: Copper—75% Nickel—25%

Design:

Obverse.—This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar, with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word “भारत” and on the right upper periphery with the word “INDIA”. The entire design and words shall be enclosed in a septagon.

Reverse.—This face of the coin shall bear in the Centre the value of the coin in international numbers, flanked on either side with an ear of corn. The words “रुपये” and “RUPEE” shall be shown above and below the value in international numerals. The year of the coinage shall appear below the word “RUPEE”. The entire design and words shall be enclosed in a septagon.

Edge.—The edge of the coin shall be milled with a serrated or upright milling and security edged. In the centre of the edge there shall be a shallow groove with a design inside its two sections separated by blank spaces. The design shall consist of Chain of beads in relief and each bead being followed by two vertical lines in relief.

[No. F. 1/9/(IV)/81-COIN]

क्र० जा० 777 (अ) — केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह प्रवचनित करती है कि निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्के भी नवम एशियाई खेल दिल्ली, 1982 के सम्मरण में केन्द्रीय सरकार के प्राधिकाराधीन जारी किए जाने के लिए एकसाज में बनाए जाएंगे, और यह कि ऐसे सिक्के, निम्नलिखित विषय, डिजाईन और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकार और बाहरी व्यास	सिक्के की संख्या	धातु संरचना
दो रुपये	वृत्ताकार 28 मिलीमीटर	200	ताम्र-रूपा ताम्र—75 प्रतिशत रूपा—25 प्रतिशत

डिजाईन

मुख्यभाग—सिक्के के मुख्यभाग पर अशोक स्तम्भ के सिंह मुम्बज के साथ “सत्यमेव जयते” मार वाक्य नीचे अंकित होगा और उसके बायें ऊपरी भाग में “भारत” शब्द और दायें ऊपरी भाग में “INDIA” शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य “2” अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में “रुपये” शब्द और दायें निचले भाग में “RUPEES” शब्द लिखा होगा। सम्पूर्ण डिजाईन, अंक और शब्द एक अष्टभुज में बंद होगा।

पृष्ठ भाग—सिक्के के इस भाग पर “IX ASIAN GAMES, DELHI, 1982” अंकित होगा। सिक्के के मध्य में नवम एशियाई खेल, 1982 का प्रतीक अर्थात् “जंतर मंतर” स्मारक का रूपण होगा जिसके साथ

एशियाई खेल के प्रतीक के रूप में सूर्य, सप्तरीक के ऊपर अंकित होगा तथा जिसके बायें भाग में “नवम एशियाई खेल” और दायें भाग में “IX ASIAN GAMES” अंकित होगा। “DELHI” शब्द और “1982” वर्ष प्रतीक के नीचे दर्शाया जाएगा। सम्पूर्ण डिजाईन, अंक और शब्द एक अष्टभुज में बंद होंगे।

किनारा—सिक्के के किनारे सेरेगित या ऊंचे उठे हुए रेखांकित और सुरक्षा किनारे से रेखांकित होंगे। किनारे के मध्य एक उभरा घेव होगा जिसके खाली स्थानों में पृथक किए गए दो खण्डों के भीतर एक डिजाईन होगा। यह डिजाईन उद्भूत मणिकाओं की शृंखला होगी जो पन्तराज पर होगा और प्रत्येक मणिका के पीछे दो उद्भूत उध्वार रेखाएं होंगी।

[सं० एक 1/9/ II / 81 क्वायन]

सी० जी० पथरोस, अवर सचिव

S.O.777(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that the coins of the following denomination shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government in commemoration of IX ASIAN GAMES DELHI 1982, and that such coins shall conform to the following dimension, design and metal composition, namely:

Denomination of the coins	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
Two Rupees	Circular 28 millimetre	200	Cupro-Nickel : Copper—75% Nickel—25%

Design:

Obverse.—This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar, with the Legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word “भारत” and on the right upper periphery with the word “INDIA”. It shall also bear the denominational value “2” in international numerals flanked on the left lower periphery with the word “रुपये” and on the left lower periphery with the word “RUPEES”. The entire design, figure and words shall be enclosed in an octagon.

Reverse.—This face of the coin shall have the theme “IX ASIAN GAMES DELHI 1982”. In the centre of the coin, there shall be the emblem of IX Asian Games, 1982, namely, a representation of “JANTAR MANTAR” monument with the sun representing the Asian Games Symbol over the emblem flanked on the left periphery with the inscription “नवम एशियाई खेल” and on the right “IX ASIAN GAMES”. The word “DELHI” and the year of the coinage in international numerals shall be shown below the emblem. The entire design, figure and words shall be enclosed in an octagon.

Edge.—The edge of the coin shall be milled with a serrated or upright milling and security edged. In the centre of the edge there shall be a shallow groove with a design inside its two sections separated by blank spaces. This design shall consist of chain of beads in relief and each bead being followed by two vertical lines in relief.

[No. F. 1/9/(II)/81-COIN]

C.G. PATHROSE, Under Secy.